



| Date | Visitor's Name, Designation, Address and Contact Number | Remarks |
|---------|---|---|
| 28/6/19 | श्री. वि. शर्मा | <p>श्री. वि. शर्मा जी का कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों पर चर्चा।</p> |
| 6/7/19 | श्री. वि. शर्मा | <p>श्री. वि. शर्मा जी का कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों पर चर्चा। श्री. वि. शर्मा जी का कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों पर चर्चा।</p> |



KEEP YOUR SHOES HERE



KEEP YOUR SHOES HERE



महात्मा गांधीजीनुं जन्म-स्थल
आ ओरडामां साधियापाणा स्थणे सं. १८२५ ना भाद्रपदा वद वारश तारीख बीछ ओक्टोबर १८६९ ना दिने
पुतलीबानी कृषे तेमना थोथा संतान मोहनदास कर्मचंद गांधीनो जन्म थयो.

महात्मा गांधीजीका जन्म-स्थल
अस कमरेमें स्वस्तिक चिह्नके स्थान पर भाद्रपद कृष्णा द्वादशी, संवत् १९२५ विक्रम (२ अक्टुबर,
सन १८६९ आसवी) को श्री पुतलीबाने अपनी चौथी संतान मोहनदास कर्मचंद गांधीको जन्म दिया था।

THE BIRTH-PLACE OF MAHATMA GANDHIJI

It was in this room exactly at the place bearing the Swastika mark that
Putaliba gave birth to Mohandas Karamchand Gandhi, her fourth child, on the
2nd October 1869 A.D. I.E. the 12th day of the dark half of Bhadrapada of 1925
(Vikrama Samvat.)





મુલતી સ્મૃતિ પુતિલબાઈ ગાંધી
મુલતી સ્મૃતિ પુતિલબાઈ ગાંધી
Mother Smr. Putilbai Gandhi



પિતાશ્રી શ્રી કારાચંદ ઉત્તમચંદ ગાંધી
પિતાશ્રી શ્રી કારાચંદ ઉત્તમચંદ ગાંધી
Father Shree Karanchand Uttamchand Gandhi

पूज्य महात्मा गांधीजीका जन्मस्थान BIRTH PLACE OF MAHATMA GANDHIJI

महात्मा गांधीजी जहाँ जन्मे थे वह मकान
महात्मा गांधीजी जहाँ जन्मे थे वह मकान सन् १७७० में उनके प्रपितामह श्री हरजीवजी रावदासजी गांधी द्वारा यहाँ के स्थानीय निवासी माधवदास से खरीदा गया था गांधीजी के पितामह श्री उत्तमचंदजीने कुछ परिवर्तन करके इस मकान को दो मंजिला बनाया कालान्तर में एक और मंजिल को जुद्धी हुई और इस प्रकार गांधीजी जन्म समय पर (२ अक्टूबर १८६९) यह मकान तीन मंजिला था इस में गलियारा सहीत २२ कमरे हैं।

गांधीजी जहाँ जन्मे थे वहाँ ते मकान
गांधीजी जहाँ जन्मे थे वहाँ ते मकान हेतु या पितामह श्री हरजीवजी रावदासजी गांधी द्वारा १७७० में यहाँ के स्थानीय निवासी माधवदास पाठेजी खरीदाया गया गांधीजी के पितामह श्री उत्तमचंदजीने कुछ परिवर्तन करके इस मकान को दो मंजिला बनाया कालान्तर में एक और मंजिल को जुद्धी हुई और इस प्रकार गांधीजी जन्म समय पर (२ अक्टूबर १८६९) यह मकान तीन मंजिला था इस में गलियारा सहीत २२ कमरे हैं।

THE HOUSE WHERE THE MAHATMA GANDHIJI WAS BORN
THE HOUSE WHERE THE MAHATMA GANDHIJI WAS BORN WAS PURCHASED IN 1777 A. D. BY HIS GREAT GRAND FATHER HARJIVANJI RAHIDASJI GANDHI FROM LOCAL LADY MAMBAI-GANDHIJI GRAND FATHER UTTAMCHANDJI CARRIED OUT SOME CHANGES AND MADE IT A TWO STOREY BUILDING COURSE OF TIME ONE MORE STOREY WAS ADDED TO THE BUILDING AND BY THE TIME GANDHIJI WAS BORN (2nd OCTOBER 1869 A.D.) IT WAS A THREE STOREY BUILDING AND NOW CONSISTS OF 22 ROOMS INCLUDING PASSAGE THE WALLS OF SOME OF THE ROOMS ARE PAINTED WITH PAINTINGS.



पूज्य महात्मा गांधीजीका जन्मस्थान
महात्मा गांधीजी जहाँ जन्मे थे वह मकान सन् १७७० में उनके प्रपितामह श्री हरजीवजी रावदासजी गांधी द्वारा यहाँ के स्थानीय निवासी माधवदास से खरीदा गया था गांधीजी के पितामह श्री उत्तमचंदजीने कुछ परिवर्तन करके इस मकान को दो मंजिला बनाया कालान्तर में एक और मंजिल को जुद्धी हुई और इस प्रकार गांधीजी जन्म समय पर (२ अक्टूबर १८६९) यह मकान तीन मंजिला था इस में गलियारा सहीत २२ कमरे हैं।

गांधीजी जहाँ जन्मे थे वहाँ ते मकान
गांधीजी जहाँ जन्मे थे वहाँ ते मकान हेतु या पितामह श्री हरजीवजी रावदासजी गांधी द्वारा १७७० में यहाँ के स्थानीय निवासी माधवदास पाठेजी खरीदाया गया गांधीजी के पितामह श्री उत्तमचंदजीने कुछ परिवर्तन करके इस मकान को दो मंजिला बनाया कालान्तर में एक और मंजिल को जुद्धी हुई और इस प्रकार गांधीजी जन्म समय पर (२ अक्टूबर १८६९) यह मकान तीन मंजिला था इस में गलियारा सहीत २२ कमरे हैं।

THE HOUSE WHERE THE MAHATMA GANDHIJI WAS BORN
THE HOUSE WHERE THE MAHATMA GANDHIJI WAS BORN WAS PURCHASED IN 1777 A. D. BY HIS GREAT GRAND FATHER HARJIVANJI RAHIDASJI GANDHI FROM LOCAL LADY MAMBAI-GANDHIJI GRAND FATHER UTTAMCHANDJI CARRIED OUT SOME CHANGES AND MADE IT A TWO STOREY BUILDING COURSE OF TIME ONE MORE STOREY WAS ADDED TO THE BUILDING AND BY THE TIME GANDHIJI WAS BORN (2nd OCTOBER 1869 A.D.) IT WAS A THREE STOREY BUILDING AND NOW CONSISTS OF 22 ROOMS INCLUDING PASSAGE THE WALLS OF SOME OF THE ROOMS ARE PAINTED WITH PAINTINGS.

पूज्य महात्मा गांधीजीका जन्मस्थान BIRTH PLACE OF MAHATMA GANDHIJI

महात्मा गांधीजी जहाँ जन्मे थे वहाँ जन्मस्थान
जहाँ गांधीजी का जन्म हुआ वहाँ जन्मस्थान
जहाँ गांधीजी का जन्म हुआ वहाँ जन्मस्थान
जहाँ गांधीजी का जन्म हुआ वहाँ जन्मस्थान

गांधीजी का जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई. में हुआ।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।

THE HOUSE WHERE THE MAHATMA GANDHIJI WAS BORN
HIS GREAT GRAND FATHER HANUMANTH BARMAN WAS PURCHASED IN 1771 A. D. BY
GRAND FATHER UTTAMCHANDJI CHANDJI BUT SOME OF HIS LOCAL LAY BARMAN/GANDHIJI
BUILDING COURSE OF THE ONE MORE STOREY WAS ADDED TO THE MAIN BUILDING
THE GANDHIJI WAS BORN FROM ACTRESS (SIBRAJI) WHO A THREE CLAN BARMAN
OF 22 BARS INCLUDING FATHERS THE HOUSE OF HOUSE OF THE HOUSE ARE OCCUPANTS

गांधीजी का जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई. में हुआ।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।
जन्मस्थान का नाम 'पटलदास' था।







सत्य

